



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1839]

No. 1839]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 6, 2009/कार्तिक 15, 1931

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 6, 2009/KARTIKA 15, 1931

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2009

का.आ. 2850(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 14घ के साथ पठित धारा 14ख की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यायमूर्ति (उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश) एस. बी. सिन्हा को, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करते हैं, तीन वर्ष की अवधि के लिए या जब तक वह सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते हैं, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, दूरसंचार विवाद समाधान और अमील अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त करती है।

[फा. सं. 15-11/2008-पुनर्गठन]

एस. चंद्रशेखर, उप-सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND
INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th November, 2009

S.O. 2850(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 14B read with section 14D of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Central Government hereby appoints Justice (Retired Judge of the Supreme Court) S.B. Sinha, as the Chairperson of the Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal for a period of three years from the date on which he enters upon his office or until he attains the age of seventy years, whichever is earlier.

[F.No. 15-11/2008-Rest.]

S. CHANDRASEKHAR, Dy. Secy.